



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र, 1941 (श०)

संख्या- 710 राँची, मंगलवार, 03 सितम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

19 अगस्त, 2019

आदेश संख्या-5/आरोप-1-135/2018 का.-6576 -- ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2111, दिनांक 25.05.2018 के माध्यम से मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-594, दिनांक 04.06.2015 द्वारा देवघर, गिरिडीह, दुमका एवं गोड्डा जिले में विधायक मद/सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मद में सोलर स्ट्रीट लाईट/व्यक्तिगत सोलर लाईट क्रय के क्रम में हुई अनियमितता के संबंध में जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

2. उक्त जाँच प्रतिवेदन में श्री पवन कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-690/03), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, गिरिडीह को वित्तीय नियमावली के अनदेखी के लिए जिम्मेवार माना गया, जिसके आलोक विभागीय पत्रांक-6944, दिनांक 10.09.2018 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

3. श्री कुमार के पत्रांक-3114, दिनांक 25.10.2018 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जिस पर विभागीय पत्रांक-9071, दिनांक 13.12.2018 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से मंतव्य की माँग की गयी, जिसमें उल्लेख किया गया कि निविदा से संबंधित

बैठक की कार्यवाही में श्री कुमार का हस्ताक्षर करना निविदा प्रक्रिया पर उनकी सहमति प्रदान करने का सूचक है।

4. श्री कुमार के पत्रांक-3426, दिनांक 12.07.2019 द्वारा पूरक स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जिसमें इनके द्वारा उल्लेख किया गया कि वित्तीय नियमावली की अनदेखी के लिए इन्हें जिम्मेवार माना जाना तथ्यात्मक रूप से निराधार एवं सत्य से परे हैं।

5. श्री कुमार के विरुद्ध आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए इस मामले में इन्हें आरोप मुक्त किया जाता है।

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
